

सं.52 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
	1	2	3	4	5
निवल वित्तीय आस्तियाँ(I-II)	287802.7	297217.6	293954.9	451660.3	1330635.4
जीडीपी का प्रतिशत	4.4	4.6	4.3	6.4	4.9
I. वित्तीय आस्तियाँ	577822.4	632335.6	748109.7	968986.1	2927253.7
जीडीपी का प्रतिशत	8.9	9.8	11.0	13.6	10.9
जिसमें:					
1. कुल जमा राशियाँ (ए+बी)	185429.1	317361.2	280233.1	325852.7	1108876.2
(ए) बैंक जमा राशियाँ	163172.4	299532.7	256399.7	307866.8	1026971.5
i. वाणिज्यिक बैंक	158613.3	300565.0	248459.8	284968.0	992606.2
ii. सहकारी बैंक	4559.0	-1032.4	7939.8	22898.9	34365.3
(बी) गैर-बैंक जमा राशियाँ	22256.8	17828.6	23833.5	17985.9	81904.7
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	6504.8	2076.7	8081.6	2234.0	18897.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	4230.6	3267.2	3246.9	3945.8	14690.4
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	2274.2	-1190.5	4834.7	-1711.8	4206.6
2. जीवन बीमा निधियाँ	73357.5	151737.1	167581.7	156268.5	548944.9
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	146719.1	118171.9	136388.4	216513.6	617793.1
4. मुद्रा	66438.9	-54579.3	76760.1	148990.1	237609.7
5. निवेश	51502.6	48530.1	49778.6	64150.6	213961.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35443.5	44484.0	40205.9	58954.5	179087.8
(बी) इक्विटी	13560.9	1378.2	6434.1	1664.9	23038.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	54375.1	51114.5	37367.7	57210.6	200068.0
II. वित्तीय देयताएँ	290019.7	335118.0	454154.8	517325.8	1596618.3
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	5.2	6.7	7.3	5.9
ऋण/उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	289781.5	334879.7	453916.6	517087.5	1595665.3
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	234235.0	263450.2	370782.9	383843.2	1252311.4
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	230283.8	261265.3	368304.6	331291.0	1191144.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	55546.4	71429.5	83133.7	133244.3	343353.9
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30531.7	36650.3	55791.7	94565.3	217539.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22336.7	33031.2	24903.3	36745.8	117017.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2678.0	1747.9	2438.7	1933.2	8797.8
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	33.7	33.7	33.7	33.7	135.0
3. सामान्य सरकार	204.5	204.5	204.5	204.5	818.0

सं.52 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
	1	2	3	4	5
निवल वित्तीय आस्तियाँ(I-II)	349607.1	283994.4	294431.6	666547.4	1594580.4
जीडीपी का प्रतिशत	4.8	3.9	3.8	8.4	5.3
I. वित्तीय आस्तियाँ	671244.1	810128.8	805066.2	1187279.1	3473718.2
जीडीपी का प्रतिशत	9.3	11.2	10.4	14.9	11.5
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियाँ (ए+बी)	266680.3	407948.0	296931.3	406706.9	1378266.4
(ए) बैंक जमाराशियाँ	253004.1	501768.5	277432.0	390720.4	1422924.9
i. वाणिज्यिक बैंक	243833.9	502260.7	280096.7	383460.6	1409651.9
ii. सहकारी बैंक	9170.2	-492.2	-2664.7	7259.8	13273.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियाँ	13676.2	-93820.5	19499.4	15986.5	-44658.5
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	-485.4	-107982.1	5337.7	1824.9	-101304.9
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	6119.3	4782.3	4895.8	1942.9	17740.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	-6604.7	-112764.4	441.9	-118.0	-119045.2
2. जीवन बीमा निधियाँ	157301.9	140356.8	160135.2	189267.6	647061.4
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	163686.0	148356.1	153435.1	253882.9	719360.2
4. मुद्रा	-48636.2	-36700.8	56719.0	146643.8	118025.7
5. निवेश	41014.3	72664.6	79238.2	108336.6	301253.8
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32085.6	55768.8	60134.6	90973.0	238962.1
(बी) इक्विटी	3756.7	7146.3	9941.1	8236.1	29080.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	91197.8	77504.1	58607.4	82441.4	309750.7
II. वित्तीय देयताएँ	321637.1	526134.4	510634.6	520731.7	1879137.8
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	7.3	6.6	6.5	6.2
ऋण/उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	321519.8	526016.2	510516.4	520613.5	1878665.8
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	213606.3	868873.9	402647.1	392330.5	1877457.7
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208026.5	875654.0	389898.0	382557.9	1856136.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	107913.6	-342857.7	107869.2	128283.0	1208.0
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81448.8	59683.7	85031.8	100836.5	327000.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23784.0	-404294.0	21233.4	25852.9	-333423.7
iii. बीमा कंपनियाँ	2680.7	1752.6	1604.0	1593.6	7631.0
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	33.7	34.7	34.7	34.7	138.0
3. सामान्य सरकार	83.5	83.5	83.5	83.5	334.0

सं.52 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024-25				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
	1	2	3	4	5
निवल वित्तीय आस्तियाँ(I-II)	551994.2	496676.1	271043.1	674489.0	1994202.4
जीडीपी का प्रतिशत	7.0	6.3	3.2	7.6	6.0
I. वित्तीय आस्तियाँ	840665.3	901135.4	689663.5	1129381.1	3560845.4
जीडीपी का प्रतिशत	10.6	11.5	8.1	12.8	10.8
जिसमें:					
1. कुल जमा राशियाँ (ए+बी)	274567.9	403591.4	158320.8	418183.6	1254663.6
(ए) बैंक जमा राशियाँ	254885.4	388328.6	141290.0	401577.5	1186081.4
i. वाणिज्यिक बैंक	251171.1	389734.0	147864.7	395337.4	1184107.2
ii. सहकारी बैंक	3714.3	-1405.4	-6574.7	6240.0	1974.2
(बी) गैर-बैंक जमा राशियाँ	19682.4	15262.8	17030.8	16606.1	68582.2
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	7461.4	3041.8	4809.8	4385.1	19698.2
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	6289.7	3230.0	4444.5	4220.0	18184.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1171.7	-188.2	365.4	165.1	1514.0
2. जीवन बीमा निधियाँ	175427.0	178835.2	90159.4	90393.0	534814.6
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	170218.2	170219.6	170758.3	281332.6	792528.6
4. मुद्रा	34212.5	-57615.2	70840.8	162236.1	209674.1
5. निवेश	120638.2	152637.1	159255.2	103720.8	536251.4
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	106987.0	137618.0	124132.0	97193.0	465930.0
(बी) इक्विटी	14448.0	15645.0	36063.1	7410.3	73566.5
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	65601.6	53467.4	40329.0	73515.0	232913.0
II. वित्तीय देयताएँ	288671.1	404459.3	418620.4	454892.1	1566642.9
जीडीपी का प्रतिशत	3.7	5.2	4.9	5.2	4.7
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	288492.4	404280.6	418441.7	454713.3	1565928.0
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	205040.4	322147.7	319626.6	387045.6	1233860.3
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208525.3	321241.4	302569.3	379856.5	1212192.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	83452.0	82132.9	98815.0	67667.7	332067.7
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	65813.7	65488.7	75764.5	39833.9	246900.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	15125.2	14233.6	20561.4	25756.8	75677.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2513.1	2410.7	2489.1	2077.1	9489.9
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	34.7	34.7	34.7	34.7	139.0
3. सामान्य सरकार	144.0	144.0	144.0	144.0	576.0

टिप्पणियाँ: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय आस्तियों से है, जिन्हें वित्तीय आस्तियों और देयताओं के प्रवाह के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।
2. 2024-25 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूँजी निर्माण, 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2024-25 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।